

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 256] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28, 1982/भाद्र 6, 1904
No. 256] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28, 1982/BHADRA 6, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

मोहम्मद और परिवर्तन मंत्रालय

(पत्तन खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1982

सा.का.नि. 546(अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908
(1908 का 15) की धारा 7 की उपधारा (1) और धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव शिव पत्तन न्यासी बोर्ड को उक्त पत्तन
के संरक्षक के रूप में और उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन पत्तन पर लिए
जाने के लिए प्राधिकृत सभी शोध्यों, फीसों और अन्य प्रभारों को प्राप्त करने तथा

उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किन्हीं उद्देश्यों पर उन प्राप्तियों को व्यय करने के लिए नियुक्त करती है ।

[सं. पी डब्ल्यू/पीजी एल-12/82]

एस. पी. एम्ब्रोस, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1982

G.S.R. 546(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 and sub-section (1) of section 36 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby appoints the Board of Trustees of the Port of Nhava-Sheva to be Conservator of the said port and to receive all dues, fees or other charges authorised to be taken at the port by or under the said Act and, subject to the control of the Central Government, to expend the receipts on any of the objects authorised by the said Act.

[No. PW/PGL-12/82]

S. P. AMBROSE, Addl. Secy.